

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ 25, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 183-महेश्वर (अ.जा.) से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्री मेव राजकुमार शपथ ग्रहण करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री एन. के.पी. साल्वे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, तथा
- (2) श्री नंदलाल माटा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार —

- (i) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012), तथा
- (ii) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012)

पटल पर रखेंगे.

5. फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

“सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापिस लेने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे, ताकि कृषकों को राहत मिल सके.”.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

भोपाल :
दिनांक 15 जुलाई, 2012

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.